

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस





प्रमुख खबरें

- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इस मानसून सीजन में वर्षा लंबी अवधि के औसत का 103% होने की उम्मीद है।
- मई के अंत तक भारत में गेहूं की खरीद वर्ष-दर-वर्ष 54% घटकर 18.65 मिलियन टन रह गई, जो 13 साल में सबसे कम है।
- सोयाबीन तेल पर टैरिफ मूल्य बढ़कर 1866 डॉलर प्रति टन कर दिया गया है, जो वर्ष-दर-वर्ष लगभग 49% अधिक है। यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा घोषित अब तक का उच्चतम टैरिफ मूल्य है।
- रिफिनिटिव ईकॉन के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में मास्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से भारत को 34 मिलियन बैरल रियायती रूसी तेल प्राप्त हुआ है।
- वैश्विक एल्युमीनियम उत्पादकों ने जुलाई-सितंबर में प्राथमिक एल्युमीनियम की शिपमेंट के लिए जापानी खरीदारों को 172 डॉलर से 177 डॉलर प्रति टन के प्रीमियम की पेशकश की है,

जो कि मौजूदा तिमाही की तुलना में 2.9% अधिक होगा।

- आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया के सबसे बड़े तांबा उत्पादक चिली में तांबे का उत्पादन सालाना आधार पर 9.8% गिरकर 421,742 टन हो गया।
- ईरानी तेल मंत्रालय ने कहा कि कच्चे तेल का निर्यात बढ़कर लगभग 900,000 बैरल/दिन हो जाने के कारण पिछले महीनों में इसके तेल, कंडेंस और गैस निर्यात राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष 60% की वृद्धि हुई है।
- भारत में ग्रीष्मकालीन बुआई क्षेत्र वर्ष-दर-वर्ष 5.1% बढ़कर 76 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसमें ग्रीष्मकालीन दलहन क्षेत्र 17.3% बढ़कर 23 लाख हेक्टेयर हो गया है जबकि मूंग और उड़द के बुआई क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- चीन में चल रहे कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के कारण 2022 में सोयाबीन की मांग साल दर साल 6% घटकर लगभग 90.8 मिलियन टन रहने की उम्मीद है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	27.05.22	02.06.22	बदलाव (%)
धान 1121	4614.00	4711.00	2.10%
सीसेम सीड	10535.00	10675.00	1.33%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	27.05.22	02.06.22	बदलाव (%)
निकल	2124.00	2304.00	8.47%
तांबा	776.90	807.40	3.93%
जिंक	330.40	336.90	1.97%
कच्चा तेल	8897.00	9045.00	1.66%
लेड	184.45	185.45	0.54%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	27.05.22	02.06.22	बदलाव (%)
ग्वारगम	6021.00	5799.00	-3.69%
ग्वारसीड	2232.00	2186.00	-2.06%
बाजरा	21460.00	21050.00	-1.91%
जीरा	2881.00	2827.00	-1.87%
कॉटनऑयलसीडकेक	6021.00	5799.00	-3.69%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	27.05.22	02.06.22	बदलाव (%)
एल्युमीनियम	241.55	234.05	-3.10%
कॉटन	46230.00	45880.00	-0.76%

साप्ताहिक समीक्षा

डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी ट्रेजरी में वृद्धि के बावजूद सीआरबी इंडेक्स ने हाल के उच्च स्तर 342 के करीब बंद करने की कोशिश की। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट और मजबूत डॉलर के दबाव के बीच सोने की कीमतों अपने साप्ताहिक नुकसान की भरपायी करने में सफल हुई। ऐसा भी लगता है कि कुछ भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम कम हो गया है क्योंकि बाजार पर रूस/यूक्रेन संघर्ष का अब खास असर नहीं पड़ रहा है। चांदी की कीमतों भी सोने के नक्शेकदम पर चली। ऊर्जा काउंटर में, कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई जबकि नेचुरल गैस की कीमतें कम हो गईं। कच्चे तेल की कीमतों में इस संदेह के कारण भी उछाल आया कि ओपेक+ से संबंधित उत्पादक रूस से आपूर्ति में कमी के लिए अपने कच्चे तेल के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल दोनों की वायदा कीमतों में कई हफ्तों से तेजी का रुझान है क्योंकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण करने पर रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूसी निर्यात में कमी हुई है। ओपेक+ के दो सूत्रों के अनुसार, ओपेक+ की तकनीकी समिति ने 2022 के तेल बाजार में सरप्लस के अपने पूर्वानुमान को लगभग 500,000 बैरल/दिन घटाकर 1.4 मिलियन बैरल/दिन कर दिया। कच्चे तेल में मुनाफावसूली के साथ बेस मेटल में एल्युमीनियम की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट हुई। बढ़ती ऊर्जा लागत के कारण यूरोप के प्राथमिक एल्युमीनियम स्मेल्टर उत्पादन में कटौती कर रहे हैं। तांबा, जिंक और लेड की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। धातु प्रसंस्करण संयंत्रों के उपग्रह निगरानी के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर तांबा गलाने की गतिविधि मई में बढ़ी है क्योंकि यूरोप और अन्य जगहों पर गलाने की गतिविधि में कमी की भरपायी चीन में बढ़ोतरी से हुई है। एलएमई पंजीकृत गोदामों में जिंक का स्टॉक 84,700 टन है जो अप्रैल 2020 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। रद्द किए गए वारंट-डिलीवरी के लिए निर्धारित धातु-48% है जिससे पता चलता है कि अधिक धातु को एलएमई गोदामों से निकाला गया है।

कृषि कमोडिटीज में, कॉटन में तेजी से गिरावट देखी गई क्योंकि एमसीएक्स ने पोर्जीशन लिमिटेड सीमित कर दी। इसके अलावा, साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन ने 100% मिलों को बंद करने और कपास की खरीद बंद करने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे पिछले कुछ कारोबार में कीमतों में 5.35% की कमी हुई है। उत्तर भारत में कपास की बुवाई शुरू हो गई है और सितंबर-अक्टूबर 2022 में नए सीजन का कपास बाजार में आने लगेगा। मई 2022 की अपनी मासिक रिपोर्ट में, यूएसडीए ने 2021/22 के लिए वैश्विक स्तर पर कपास उत्पादन में पिछले महीने की तुलना में 1.8 मिलियन गांठ की कटौती की, जिसका मुख्य कारण भारत से 1.0 मिलियन गांठ की कमी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य रहने के अनुमान के बाद ग्वार कॉम्प्लेक्स की कीमतों में गिरावट हुई। आने वाले मौसम में सामान्य मांग और अधिक बुवाई की उम्मीद है। निर्यात के कम आंकड़ों के कारण कैस्टरसीड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। निर्यात के मोर्चे पर, अप्रैल 2022 में अरंडी का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 7.7% कम होकर 25758 टन हुआ है, जबकि 2022 में पहले 4 महीनों में कैस्टर मील का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 1.31 लाख टन की तुलना में 4.4% कम होकर 1.26 लाख टन रह गया है क्योंकि निर्यात मूल्य पिछले वर्ष के 72 डॉलर की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 95% बढ़कर 141 डॉलर प्रति टन हो गया है। मसालों में, जीरा की कीमतों में गिरावट हुई। जीरे की मांग सामान्य है क्योंकि चीन से उम्मीद के मुताबिक निर्यात में सुधार नहीं हुआ है। धनिया का कारोबार तेजी के रुझान के साथ हुआ क्योंकि प्रोसेसर और व्यापारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीद रहे हैं। हल्दी की मांग सामान्य थी और थोक व्यापारियों द्वारा आक्रामक खरीदारी की कमी के कारण निर्यात मांग में तेजी नहीं आ रही है।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	27.05.22	02.06.22	(%)
जौ	जयपुर	3,177.15	3,155.25	-0.69
चना	दिल्ली	4,737.60	4,700.05	-0.79
धनिया	कोटा	11,730.05	11,803.70	0.63
कूड पॉम ऑयल	कांडला	1,468.65	1,410.30	-3.97
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,294.40	1,277.05	-1.34
ग्वारसीड	जोधपुर	6,080.05	5,825.00	-4.19
ग्वारगम	जोधपुर	11,805.75	11,150.00	-5.55
जीरा	ऊंझा	21,540.40	21,369.45	-0.79
सरसों	जयपुर	7,011.00	6,850.85	-2.28
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,560.00	1,520.00	-2.56
सोयाबीन	इंदौर	7,029.50	6,954.50	-1.07
हल्दी	निजामाबाद	8,382.30	8,162.85	-2.62
गेहूं	दिल्ली	2,258.85	2,261.45	0.12
कॉटन	कड़ी	47,328.45	45,655.25	-3.54
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3,077.35	3,027.50	-1.62

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	27.05.22	02.06.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2,871.50	2,726.00	-5.07
तांबा	LME	नकद	9,459.00	9,499.50	0.43
लेड	LME	नकद	2,159.00	2,169.00	0.46
निकल	LME	नकद	28,284.00	28,119.00	-0.58
जिंक	LME	नकद	3,843.50	3,864.50	0.55
सोना	COMEX	अगस्त	1,857.30	1,866.50	0.50
चांदी	COMEX	जुलाई	22.10	22.28	0.81
लाइट कूड	NYMEX	जुलाई	115.07	116.87	1.56
नेचुरल गैस	NYMEX	जुलाई	8.73	8.485	-2.77

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	27.05.22	02.06.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	17.32	17.29	-0.17
सोया तेल	CBOT	जुलाई	79.57	81.44	2.35
कॉटन	ICE	जुलाई	139.42	139.11	-0.22
सीपीओ	BMD	अगस्त	6,353.00	6,468.00	1.81

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	27.05.22 क्वांटिटी	02.06.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	50	50	0
जौ	मी.टन	20220	200	
कैस्टर सीड	मी.टन	54985	57584	2599
धनिया	मी.टन	10658	10789	131
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	52050	50774	-1276
ग्वारगम	मी.टन	19723	19220	-503
ग्वारसीड	मी.टन	30722	29328	-1394
जीरा	मी.टन	7821	7905	84
मक्का	मी.टन	912	912	0
सोयाबीन	मी.टन	403	403	0
हल्दी	मी.टन	4507	4607	100

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	27.05.22 क्वांटिटी	02.06.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	6247.987	5956.654	-291
तांबा	मी.टन	1341763	1341763	0
सोना	किग्रा	341	616	275
सोना गिनी	किग्रा	14096	14096	0
सोना मिनी	किग्रा	18500	28500	10000
लेड	किग्रा	1,524.42	1147.391	-377
निकल	किग्रा	84,344.00	67915	-16429
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	22263.508	28390.884	6127
जिंक	मी.टन	364.70	593.814	229

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 27.05.22	स्टॉक की स्थिति 02.06.22	अंतर
एल्युमीनियम	475,650	453,875	-21,775
तांबा	162,425	145,950	-16,475
निकल	72,300	71,472	-828
लेड	38,800	38,800	-
जिंक	86,600	83,575	-3,025



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जून	21050.00	11.05.22	तेजी	21200.00	20850.00	-	20800.00
NCDEX	ग्वारसीड	जून	5799.00	30.05.22	मंदी	6000.00	-	6080.00	6100.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जून	2827.00	04.04.22	मंदी	3200.00	-	2990.00	3000.00
MCX	रबर	जून	17500.00	14.12.21	मंदी	17800.00	-	18280.00	18300.00
MCX	मेंथा ऑयल	जून	1066.30	23.05.22	मंदी	1080.00	-	1110.00	1115.00
MCX	बुलडेक्स	जून	14578.00	16.05.22	तेजी	14200.00	14250.00	-	14200.00
MCX	चांदी	जुलाई	62336.00	16.05.22	तेजी	59000.00	60500.00	-	60400.00
MCX	सोना	जून	51269.00	16.05.22	तेजी	50000.00	50400.00	-	50350.00
MCX	मेटलडेक्स	जून	19943.00	16.05.22	तेजी	21500.00	19450.00	-	19400.00
MCX	तांबा	जून	807.40	16.05.22	तेजी	760.00	770.00	-	765.00
MCX	लेड	जून	185.45	25.04.22	मंदी	187.00	-	192.50	193.00
MCX	जिंक	जून	336.90	16.05.22	तेजी	365.00	317.00	-	315.00
MCX	निकल	जून	2304.00	16.05.22	तेजी	2500.00	2155.00	-	2150.00
MCX	एल्युमिनियम	जून	234.05	16.05.22	तेजी	235.00	222.00	-	220.00
MCX	एनर्जीडेक्स	जून	10837.00	16.05.22	तेजी	9800.00	10450.00	-	10400.00
MCX	कच्चा तेल	जून	9045.00	15.02.22	तेजी	6800.00	8550.00	-	8500.00
MCX	नेचुरल गैस	जून	672.90	15.02.22	तेजी	320.00	605.00	-	600.00

*02/06/2022 का बंद भाव

नाट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पकड़ती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

एल्युमीनियम (जून) एमसीएक्स



एल्युमीनियम (जून) एमसीएक्स

एमसीएक्स में एल्युमीनियम (जून) कॉन्ट्रैक्ट 02 जून 2022 को 234.05 रू पर बंद हुआ। 22 अप्रैल 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 274.90 रू के उच्च स्तर पर था। 12 मई 2022 को 229.95 रू के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 37.007 है। 229.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 245.00 रू के टारगेट के लिए 234.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

धनिया (जून) एनसीडीईएक्स



धनिया (जून) एनसीडीईएक्स

एनसीडीईएक्स में धनिया (जून) कॉन्ट्रैक्ट 02 जून 2022 को 11188.00 रू पर बंद हुआ। 07 अप्रैल 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 13290.00 रू के उच्च स्तर पर था जबकि 26 मई 2022 को 10810.00 रू के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 42.819 है। 10900.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 11800.00 रू के टारगेट के लिए 11200.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

जिंक (जून) एमसीएक्स



जिंक (जून) एमसीएक्स

एमसीएक्स में जिंक (जून) कॉन्ट्रैक्ट 02 जून 2022 को 336.90 रू पर बंद हुआ। 22 अप्रैल 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 370.80 रू के उच्च स्तर पर था। 13 मई 2022 को 300.10 रू के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 58.108 है। 325.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 355.00 रू के टारगेट के लिए 335.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

निर्यात की मांग में सुधार नहीं होने और सामान्य मानसून की खबरों ने भी कीमतों पर कुछ दबाव पड़ने से पिछले हफ्ते मसालों में लगातार कमजोरी बनी रही। हल्दी वायदा (जून) की कीमतें पिछले सप्ताह एक दायरे में रही और 7850 के स्तर के पास अच्छा सपोर्ट मिला। जबकि 8200 के स्तर पर रेजिस्टेंस है। यदि कीमतें सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती है तो गिरावट बरकरार रह सकती है। इसके अलावा, दक्षिण भारत में पर्याप्त स्टॉक और अच्छी बुवाई की प्रगति की खबरों कीमतों पर दबाव बना रही हैं। नवीनतम निर्यात आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 में, हल्दी का निर्यात पिछले साल के 12,360 टन की तुलना में 27.4% बढ़कर 15750 टन हुआ है जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात पिछले साल की तुलना में 16.7% कम होकर 1.53 लाख टन हुआ है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 10% अधिक है।

निर्यात मांग में कमी के कारण बिकवाली का दबाव जारी रहने के कारण जीरा वायदा (जून) की कीमतें लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुईं। सपोर्ट 20615 के स्तर पर देखा जा रहा है जबकि रेजिस्टेंस 21900 के स्तर पर है। यदि कीमतें सपोर्ट स्तर से नीचे कारोबार करती हैं, तो कीमतों में 19300 रु तक गिरावट जारी रह सकती है। कम उत्पादन अनुमानों के कारण कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 53.2% अधिक है। व्यापारियों को 2021/22 में 5.0-6.0 मिलियन बैग (1 बैग=55 किग्रा) जीरा उत्पादन की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 8.0-8.5 मिलियन बैग से कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 में जीरा का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 35160 टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 58.5% कम होकर 14600 टन हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2021/22 की अवधि में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 27% घटकर 2.16 लाख टन रह गया है जबकि पिछले साल 2.98 लाख टन हुआ था।

धनिया वायदा (जून) की कीमतें पिछले सप्ताह 9 सप्ताह के निचले स्तर 10800 पर सपोर्ट हासिल करने के बाद काफी कम दायरे में कारोबार करती रही। कीमतों को 11500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखा गया। आपूर्ति और मांग की संतुलित स्थिति के कारण कीमतें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दायरे में साइडवेज कारोबार कर सकती है। प्रोसेसर और व्यापारी अपनी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार खरीद रहे हैं। वर्तमान में उत्पादन में कमी की आशंका से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 63% अधिक हैं और जनवरी 2022 के बाद से 27% अधिक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 में धनिया का निर्यात 28.7% कम होकर 4180 टन रह गया, जो पिछले साल 5862 टन था। जबकि वित्त वर्ष 2021/22 में निर्यात पिछले वर्ष के 57,350 टन की तुलना में 15.2% घटकर 48,615 टन रह गया है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 9.5% अधिक है।

अन्य कमोडिटीज

पिछले हफ्ते, कॉटन वायदा (जून) की कीमतें 5 सप्ताह के निचले स्तर पर फिसल गईं, लेकिन पिछले दो हफ्तों में गिरावट के साथ बंद होने के बाद कीमतों में लगभग 6% या 2700 रुपये प्रति गांठ की रिकवरी हुई। अब 45900 पर सपोर्ट है जबकि 48470 पर रेजिस्टेंस है। अब कीमतें इसी दायरे में साइडवेज कारोबार कर सकती है क्योंकि ज्यादातर शॉट कवरिंग हुई है। एनओएए द्वारा इस साल औसत से अधिक तूफान के मौसम के पूर्वानुमान के कारण अमेरिका में कपास की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन में कमी की आशंका, धीमी आवक, बढ़ती मांग और गुणवत्ता की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 95% अधिक हैं। शुल्क मुक्त आयात के निर्णय और उत्तर भारत में कपास के क्षेत्र में 15% की वृद्धि की संभावना से हाल के सप्ताहों में कपास की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।

मौसम विभाग द्वारा सामान्य मानसून की रिपोर्ट आने के बाद पिछले सप्ताह ग्वारसीड वायदा (जून) की कीमतें पिछले हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुईं। साप्ताहिक आधार पर, कीमतों को 5750 के स्तर पर अच्छा सपोर्ट दिखाई देता है और यदि कीमतें सपोर्ट स्तरों से नीचे बनी रहती है, तो इसके 5500 तक गिरावट दर्ज करने की संभावना है। पिछले एक महीने में कीमतें 10% के करीब फिसल गई हैं, लेकिन वर्तमान में, पिछले 5 वर्षों में सबसे कम उत्पादन, कई वर्षों में कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग की संभावना से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 40% अधिक हैं। ग्वारगम के निर्यात से कीमतों को समर्थन मिल सकता है क्योंकि अमेरिका में तेल-रिंग की संख्या में सुधार हो रहा है। मार्च 2022 में, ग्वारगम का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 9.4% बढ़कर 26377 टन हो गया है, जबकि 2021/22 में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 39% बढ़कर 3.21 लाख टन हुआ है। पिछले पांच साल के औसत 4 लाख निर्यात की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में ग्वारगम निर्यात लगभग 20% कम हुआ है।

पिछले हफ्ते, अरंडी वायदा (जून) की कीमतें 3 सप्ताह के निचले स्तर 7270 पर आ गईं लेकिन अच्छी मांग और निचले स्तर की खरीदारी से लगभग 3% बढ़कर 7500 के स्तर पर पहुंच गई। वर्तमान में कीमतों को 7270 पर सपोर्ट जबकि रेजिस्टेंस 7720 पर है और यदि कीमतें रेजिस्टेंस स्तर को पार करती है तो 8000 के स्तर तक बढ़त दर्ज करने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, रिकॉर्ड निर्यात कीमतों के बावजूद अरंडी के तेल और भोजन की निर्यात मांग अच्छी है। मानसून की सामान्य बारिश और चीन से निर्यात की मांग आने वाले हफ्तों में रुझान तय करेगी क्योंकि इस साल तेल मिलों और व्यापारियों के पास स्टॉक सीमित है।

मेंथा ऑयल (जून) में पिछले सप्ताह गिरावट जारी रही और और लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट के साथ बंद हुई है। अब कीमतों को 1020 के स्तर पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है जबकि रेजिस्टेंस 1099 के स्तर पर है। यदि कीमतें 1045 के स्तर से नीचे बनी रहती हैं, तो 1000 तक लुढ़क सकती है।

सर्पाफा

कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण सोने की कीमतें एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं और लगातार तीसरी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। डॉलर में गिरावट होने से विदेशी खरीदारों के लिए बुलियन अधिक आकर्षक हो गया है। आर्थिक संकट के संकेत सोने की मांग के लिए सहायक हो सकते हैं, क्योंकि निवेशक इसे एक सुरक्षित-संपत्ति मानते हैं। इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी अगली दो बैठकों में से प्रत्येक में ब्याज दर में अपेक्षित आधे प्रतिशत की वृद्धि से आगे मौद्रिक नीति को सख्त करना जारी रख सकता है। लेकिन एकमात्र सवाल दरों में यह अधिक वृद्धि की कितनी होगी। निवेशक उदाहोह में हैं क्योंकि कुछ लोगों को डर है कि अमेरिकी मौद्रिक सख्ती की गति दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जा सकती है। छोटी अवधि में उच्च अमेरिकी ब्याज दरें सोने को धारण करने की अवसर लागत को बढ़ाती हैं, जिस पर कोई ब्याज नहीं होता है। वैश्विक विकास और बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं, और रूस-यूक्रेन की लड़ाई से सोने की कीमतों को समर्थन मिल रहा है। लेकिन इसका मुकाबला डॉलर की मजबूती और उच्च अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से हो रहा है। कुछ उत्साहजनक अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और फेड अधिकारियों की तीखी टिप्पणियों ने बाजार की उम्मीदों को फिर से बढ़ा दिया है कि फेड विकास जोखिमों के बावजूद मौद्रिक सख्ती जारी रख सकता है। ईटीएफ के आउटप्लो से भी सोने में निवेशकों की दिलचस्पी कमजोर रही। मिले-जुले कारकों के बीच सांनि सीमित दायरे में रह सकता है। लेकिन अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के साथ, सामान्य रुझान नीचे की ओर हो सकता है। जब तक 1848 डॉलर पर सपोर्ट बरकरार रहेगा, तब तक सोने की कीमतों में हल्की रिकवरी देखी जा सकती है। इसके नीचे जाने पर कीमतों में तेज गिरावट हो सकती है। इस सप्ताह में कीमतों में दोनों तरफ की हलचल जारी रह सकती है, और कीमतें 50200-52000 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी में भी इसी तरह की तेजी देखने को मिल सकती है जहां 59800-65000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में अनुमान से अधिक गिरावट के बीच ईंधन की उच्च मांग के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और रूसी उत्पादन में गिरावट की भरपाई के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ओपेक + के समझौते को भी नजरन्दाज कर दिया। कीमतों को यूरोपीय संघ के रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के छूटे पैकेज द्वारा भी समर्थन मिला, जिसमें रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों के लिए नए बीमा अनुबंधों पर तत्काल प्रतिबंध और मौजूदा अनुबंधों को छह महीने में चरण बद्ध रूप से समाप्त करना शामिल होगा। तेल की कीमतें सप्ताह में पहले गिर गईं क्योंकि सऊदी अरब और अन्य ओपेक + देशों ने तेल की कीमतों और मुद्रास्फीति को कम करने और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा रियाद के साथ संबंधों में गर्मजोशी लाने वाली यात्रा के बाद रूसी उत्पादन में कमी की भरपाई करने के लिए तेल उत्पादन में वृद्धि को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। ओपेक + ने कहा कि वह सितंबर तक तीन महीनों में प्रति माह 432,000 बैरल/दिन उत्पादन बढ़ाने की प्रारंभिक योजना के मुकाबले जुलाई और अगस्त में प्रति दिन 648,000 बैरल/दिन- या वैश्विक मांग का 0.7% - उत्पादन बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है। तेल की कीमतें कई हफ्तों से बढ़ रही हैं क्योंकि यूक्रेन को 24 फरवरी के आक्रमण पर मास्को के खिलाफ अमेरिकी और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों से रूसी निर्यात कम हो गया है। इस सप्ताह में कच्चे तेल में खरीदारी जारी रह सकती है जहां इसे 8680 के पास सपोर्ट और 9250 के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। नेचुरल गैस भंडारण में साप्ताहिक वृद्धि के बीच नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी से गिरावट जारी है। मौसम ठंडा होने और मांग घटने से कीमतों में गिरावट होती है। तकनीकी स्तर पर कीमतों को 720 के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जब तक कीमतें स्तर से नीचे रहती हैं, मंदियों प्रभावित रह सकते हैं। इस सप्ताह में एमसीएक्स पर नेचुरल गैस की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, जहां इसे 610 के पास सपोर्ट मिल सकता है और 720 के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें तेजी के रूझान के साथ एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में कोविड लॉकडाउन में ढील ने मांग में बढ़ोतरी की उम्मीदों को बढ़ा दिया है, जबकि वैश्विक मुद्रास्फीति और प्रमुख देशों से खराब आर्थिक आंकड़ों के कारण मंदी की बढ़ती चिंता से औद्योगिक धातुओं की मांग पर असर पड़ सकता है। महीनों तक कोरोनावायरस लॉकडाउन के बाद शंघाई फिर से खुल गया है। हालांकि आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने में हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन यह कदम चीन के लिए कुछ उम्मीदें बढ़ाता है, जो बेस मेटल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आंकड़ों के अनुसार चीन की फैक्ट्री गतिविधि मई में धीमी गति से कम हुई है जबकि कुछ संयंत्रों पर से व्यापक रूप से कोविड-19 प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि चीन देश की धीमी होती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए स्थानीय सरकारों द्वारा विशेष बांड जारी करने में तेजी लाएगा। तांबे की कीमतें 800-830 के दायरे में कारोबार कर सकती है। धातु प्रसंस्करण संयंत्रों के उपग्रह निगरानी के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर तांबा गलाने की गतिविधि मई में बढ़ी है क्योंकि यूरोप और अन्य जगहों पर गलाने की गतिविधि में कमी की भरपायी चीन में बढ़ोतरी से हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया के सबसे बड़े तांबा उत्पादक चिली में तांबे का उत्पादन सालाना आधार पर 9.8% गिरकर 421,742 टन हो गया। एल्युमीनियम की कीमतें 225-245 के दायरे में कारोबार कर सकती है। सूत्रों के अनुसार वैश्विक एल्युमीनियम उत्पादकों ने जुलाई-सितंबर में प्राथमिक एल्युमीनियम की शिपमेंट के लिए जापानी खरीदारों को 172 डॉलर से 177 डॉलर प्रति टन के प्रीमियम की पेशकश की है, जो कि मौजूदा तिमाही की तुलना में 2.9% अधिक होगा। जिंक की कीमतें तेजी के रूझान के साथ 330-350 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लोड की कीमतें 180-193 के दायरे में कारोबार कर सकती है। यूरोप में जिंक की कमी विशेष रूप से तीव्र है, जहां बिजली की रिकॉर्ड-उच्च लागत के कारण उत्पादन में कटौती हुई है। निकल की कीमतें 2200-2400 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

सोने का म्यूचुअल फंड सुरक्षित और मजबूत निवेश

भारत में सोना खरीदने की एक प्राचीन और सबसे पसंदीदा परंपरा रही है क्योंकि इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसके मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है और इस तरह इसे एक सुरक्षित और सुरक्षित निवेश माना जाता है। सोने में निवेश करने के लिए आप या तो फिजिकल रूप या डिजिटल रूप का चुनाव करते हैं। कई निवेशक अब भौतिक सोने के बजाय कागज या डिजिटल सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। इसका कारण मुख्य रूप से सुरक्षा और सुविधा है।


सोने का फंड सोने में निवेश के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक के रूप में उभरा है। सोने का फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) या मुख्य रूप से सोने और / या सोने के उत्पादों के खनन, शोधन या विपणन में लगी कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करता है। इसलिए, भौतिक सोने की कीमत में किसी भी वृद्धि या कमी से सोने के फंड के निवेश मूल्य में परिवर्तन होता है। सोने का म्यूचुअल फंड की एक यूनिट एक ग्राम फिजिकल गोल्ड के बराबर होती है।

सोने के म्यूचुअल फंड में निवेश की तीन प्रक्रिया हैं:

सोने के ईटीएफ विशिष्टता सोने की प्रतिभूतियों की एक श्रृंखला में निवेश करने में है। सोने का म्यूचुअल फंड प्रत्यक्ष रूप से भौतिक सोने में निवेश नहीं करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सोने के ईटीएफ में निवेश करके समान पोजिशन लेते हैं। सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) 99.50 फीसदी शुद्धता वाले सोने में निवेश करते हैं, जबकि सोने के फंड गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं।

सोने के म्यूचुअल फंड के लाभ

- **कम लागत:** सोने के म्यूचुअल फंड में निवेश करना बेहद किफायती है। सोने के ईटीएफ में न्यूनतम निवेश राशि 1 ग्राम सोने की मौजूदा कीमत के बराबर होगी। यह कुछ निवेशकों के लिए किफायती नहीं हो सकता है। लेकिन आप सिर्फ 100 रुपये प्रति माह से सोने के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।
- **डीमैट खाता अनिवार्य नहीं:** सोने के ईटीएफ में निवेश के लिए एक डीमैट खाता अनिवार्य है, जबकि सोने के म्यूचुअल फंड में कोई भी डीमैट खाते के बिना भी निवेश कर सकता है। सोने के म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के माध्यम से भी निवेश होता है।
- **निवेश की निकासी करना आसान:** जब आप भौतिक सोना बेचते हैं, तो जौहरी 1%-2% मेकिंग चार्ज लेगा। अन्य खर्चे भी होते हैं जो आपके आभूषणों की समग्र कीमत को कम करते हैं। यह सब आपके विक्रय मूल्य को 2%-2.5% तक कम कर देता है। सोने के फंड के मामले में, केवल दिन के अंत में ही रिडीम किया जा सकता है और नए सिरे से खरीदारी के लिए फंड हाउस में आवेदन करना होगा।
- **सोने की शुद्धता:** जब आप भौतिक सोना खरीदते हैं, तो आप उसकी शुद्धता के संबंध में अपने जौहरी पर 100% भरोसा करते हैं। सोने के म्यूचुअल फंड में यह समस्या खत्म हो जाती है। फंड मैनेजर केवल 99.5% शुद्धता के साथ सोना खरीदता है और भौतिक सोने की प्रत्येक इकाई के साथ वर्ल्ड गोल्ड कार्टिसिल से प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
- **कर लाभ:** सोने के म्यूचुअल फंड से मिले पूंजीगत लाभ और होल्डिंग अवधि के आधार पर कर लगाया जाता है। अगर आप 3 साल से कम समय के लिए फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आपके आयकर स्लैब दर के अनुसार पूंजीगत लाभ पर कर लगेगा।



भारत में सोने के 10 प्रमुख म्यूचुअल फंड

- एक्सिस गोल्ड फंड।
- कोटक गोल्ड फंड।
- एसबीआई गोल्ड फंड।
- एचडीएफसी गोल्ड फंड
- आदित्य बिड़ला सन लाइफ गोल्ड फंड
- निप्पोन इंडिया गोल्ड सेविंग्स
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड
- क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड

इसलिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प होने के नाते, सोने का म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने के लिए कम जोखिम वाले शेयरों और सोने के निर्माताओं और खनिकों के शेयरों की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करने का अवसर देता है।



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एल्ट द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एंव उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।